



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन 1939 (श०)
(सं० पटना 228) पटना, सोमवार, 13 मार्च 2018

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

21 फरवरी 2018

सं० प्र०2/बोर्ड पुर्न० निदे०नियु०/58/2013 पार्ट।।-01—ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के विज्ञापन संख्या—13088(ऊर्जा) 2016—17 एवं पुनः विस्तारित विज्ञापन संख्या—1276 (ऊर्जा) 2017—18 के आलोक में बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों यथा—नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के लिए निदेशक (मानव संसाधन), निदेशक, (वित्त), निदेशक, (तकनीकी), निदेशक, (परिचालन) एवं निदेशक (परियोजना) के पद हेतु मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 02-12-2017 को आयोजित खोज/चयन समिति के समक्ष हुए साक्षात्कार में निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद एवं कम्पनी में अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिए नियोजित किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कम्पनी
1.	श्री संजीवन सिन्हा	निदेशक (मानव संसाधन)	बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग)कम्पनी लि०
2.	श्री अनिल कुमार सिन्हा	निदेशक (वित्त)	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि०
3.	श्री अरुण कुमार सिन्हा	निदेशक, (तकनीकी)	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि०
4.	श्री उत्तम कुमार	निदेशक (परिचालन)	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०
5.	श्री हरे राम पाण्डेय	निदेशक (परियोजना)	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०
6.	श्री कनिक राम	निदेशक (परिचालन)	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०
7.	श्री शचिन्द्र किशोर प्रसाद सिंह	निदेशक (परियोजना)	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०
8.	श्री अशोक कुमार	निदेशक (परिचालन)	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०
9.	श्री देवेन्द्र कुमार	निदेशक (परियोजना)	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०

2. निदेशक पद के वेतन का निर्धारण ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-प्र02/बोर्ड पुर्न0 सं0-31/2008/06 दिनांक 22-03-2013 की कंडिका 13 (अ) एवं 13 (ब) एवं पुनः संशोधित अधिसूचना संख्या-32 दिनांक 13-12-2013 की कंडिका 3 एवं 4 के अनुसार होगा ।

3. इनकी सेवा शर्तें इत्यादि राज्य सरकार/निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होंगी ।

4. अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में नियोजित उम्मीदवार को संबंधित कम्पनी में अपना योगदान समर्पित करना होगा, नहीं करने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनुज कुमार,
सरकार के उप-सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 228-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>